

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेलसंड।

पत्रांक:- 197/अ.ग.४ / बेलसंड दिनांक:- 27.02.2023 /

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेलसंड

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी -सह-सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

MR-3054-BIHAR RURAL ROAD NEW MAINTENANCE POLICY-2018 योजना
अंतर्गत निर्माण कार्य की राशि के अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि MR-3054-BIHAR RURAL ROAD
NEW MAINTENANCE POLICY-2018 योजना अंतर्गत संलग्न सुची के आधार पर पथ में निर्माण
कार्य की राशि का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

Rohit
27.02.2023

24/4/23

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेलसंड

Requisition for Scheme Head- MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018.

Name of Division- RWD (W) Division Beland

Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date.	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)			Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of R/R (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Amount Allocated (In Lakh)	Up-to date expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done. (In Lakh)	Remarks
				Length (In Km)	Amount of (In Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (In Lakh)	5 years Routine Maintenance (In Lakh)											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
RM/S/BEU/22/0002	Belahi se Samath	316801039909	Letter No.1567 Date 30.03.2022	2.100	98.74	81.13091	24.93975	24MBD/20	21.06.2023	In Progress	-	-	-	81.13091	0.00000	0.00000		
	Manik chowk se dhakjari	316801050495		2.215	103.43	84.62493	26.1983	22-09-2022		Comp.	3675.70	BM-50 & SDBC-25	BM- 3.3% & SDBC-5%	84.62493	0.00000	84.62493	Completed	
	DHANUKHI - WAINA	31608102057		3.900	304.38	275.05503	48.2562			In Progress	-	-	275.05503	0.00000	0.00000			
Total:-																		

Divisional Accounts Officer

R.W.D. (W) Division

Beland

Executive Engineer

R.W.D. (W) Division

Beland

27.02.2023

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (10 below Rule-150)

Form of Utilisation Certificate up to the Month of Feb- 2023

PIU-Belsand

Sl.No.	Name of Schemes	Sanction No.& Date with Amount (in Lacs Rs.)	Amount Received (in Lacs Rs.)	Particulars
1	Construction or Rural Roads under MR-3054 New Maintenance Policy.	MR-3054-New Maintenance Policy-2018		Certified that out of Rs 4054.03247 Lacs of grants-in-aid Sanctioned during the year in favour of Executive Engineer R.W.D Works Div. Belsand a Sum of Rs 3972.63334 lacs has been utilised for the purpose of New Maint. Policy-2018 Schemes as given in the margin for which it was Sanctioned and that the balance of Rs. 81.39913 lacs remaining utilized at the end of the period under report.
		BRRDA	4054.03247	
		Expenditure	3972.63334	
		Balance Total	81.39913	


Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grant-in aid was sanctioned have been dully fulfilled, are being fulfilled and that I have exercised the following check to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned .


Kind of check exercised

1. Work have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer
2. Periodical inspection has been conducted by Excutive Engineer/Superintending Engineer.
3. Contruction Material have been tested.
4. Measurment have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/ Excutive Engineer
5. Other codal formalities have been observed.

Physical progress achieved

1. Contruction of Road works.
2. Contraction of CDs works .



Divisional Accounts Officer
Rural Works Department
Works Division Belsand


27.02.2023
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Belsand


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेलसंड

कार्य का नाम:—मानिक चौक से धकजरी पथ


1. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. कराये गये कार्य के सभी अवयवों के अवयववार 100% कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता द्वारा किया गया है।


26/02/2023
कनीय अभियंता का हस्ताक्षर

3. कराये गये कार्य के सभी अवयवों के अवयववार 50% कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन सहायक अभियंता द्वारा किया गया है।


26/02/2023
सहायक अभियंता का हस्ताक्षर

4. कराये गये कार्य के सभी अवयवों के अवयववार 10% कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।


27.02.2023
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेलसंड

Lab Job number :80
Date :23-02-2023

Name of Customer :Rajnish Kumar

Name of Work/ Road :Manik chowk se dhakjari

Name of the Road	Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR		IRI CATEGORY	Latitude	ongitude	Event
							mm/km	mm/km				
	23/2/23	9:35:0	15	0.1	340	0	3400	3994 G		26.45872	85.53401	Normal
	23/2/23	9:35:16	15	0.1	340	10.1	3400	3994 G		26.45785	85.53392	Normal
	23/2/23	9:36:0	15	0.1	360	20.2	3600	4222 A		26.45696	85.53401	Speed Breaker
	23/2/23	9:36:26	15	0.1	350	10.1	3500	4108 A		26.45631	85.53466	Speed Breaker
	23/2/23	9:36:26	15	0.1	340	10.1	3400	3994 G		26.45571	85.53539	Normal
	23/2/23	9:37:2	15	0.1	350	10.1	3500	4108 A		26.4551	85.53613	Speed Bre: Good
	23/2/23	9:37:2	15	0.1	350	10.1	3500	4108 A		26.45443	85.53684	Speed Bre: <4000
	23/2/23	9:38:0	15	0.1	360	20.2	3600	4222 A		26.45378	85.53749	Speed Breaker
	23/2/23	9:38:12	15	0.1	290	10.1	2900	3426 G		26.45307	85.53801	Normal
	23/2/23	9:38:12	15	0.1	270	20.2	2700	3199 G		26.4522	85.53835	Normal
	23/2/23	9:39:0	15	0.1	240	20.2	2400	2858 G		26.45145	85.53887	Normal
	23/2/23	9:39:0	15	0.1	330	20.2	3300	3881 G		26.45079	85.53956	Curve
	23/2/23	9:39:22	15	0.1	350	10.1	3500	4108 A		26.45011	85.5402	Culvert
	23/2/23	9:39:22	15	0.1	260	20.2	2600	3086 G		26.44949	85.54091	Normal
	23/2/23	9:40:0	15	0.1	330	20.2	3300	3881 G		26.44889	85.542	Normal
	23/2/23	9:40:0	15	0.1	290	20.2	2900	3426 G		26.44836	85.54244	Normal
	23/2/23	9:40:32	15	0.1	290	20.2	2900	3426 G		26.44783	85.54327	Normal
	23/2/23	9:40:32	15	0.1	340	10.1	3400	3994 G		26.44711	85.54391	Normal
	23/2/23	9:41:8	15	0.1	250	10.1	2500	2972 G		26.44677	85.54481	Normal
	23/2/23	9:41:8	15	0.1	210	20.2	2100	2518 G		26.44637	85.54571	Normal
	23/2/23	9:41:43	15	0.1	220	20.2	2200	2631 G		26.44607	85.54663	Normal
	23/2/23	9:42:18	15	0.1	360	20.2	3600	4222 A		26.44619	85.54753	Speed Breaker
	23/2/23	9:42:18	15	0.031	110	30.3	3548	4163 A		26.44608	85.54798	Speed Breaker
AVERAGE										3675.70		

23/02/2023
JC

23/02/2023
A.E.

27.02.2023

Sheet Analyser

Name of Customer : Rajnish Kumar
 Name of Work : Manik chowk se dhokhari
 Road :
 Lab Job number : 80
 Date : 23-02-2023
 Section No. : 15


Road Name : Manik chowk se dhokhari
 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Machine No : 394
 Start S No :
 Start E No :
 Weather :
 Start Location :
 End Location :
 Side :
 UIV Range : 1518 To 5000 Interval 1000 mm/Km
 Dist Range : 0 To 24 0.1 = 1000 m
 Equation : $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : G:\23021127.Xls. Section No. : 15. Eqn : $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$
 Name of Customer : Rajnish Kumar. Name of Work/ Road : Manik chowk se dhokhari. Lab Job number : 80



Wit
 23/02/2023
 J.C.

28/02/2023
 A.E.

27.02.2023